


विशेष रिपोर्ट

बुलियन


(जुलाई 2021)



Moneywise. Be wise.



स्रोत: एसएमसी रिसर्च एवं रॉयटर्स



स्रोत: एसएमसी रिसर्च एवं रॉयटर्स

जून महीने में, कोमेक्स में सोने की कीमतों में लगभग 7% की गिरावट हुई है, जो नवंबर 2016 के बाद से सबसे अधिक मासिक गिरावट है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अपने दरों में बदलाव को लेकर रूख में आश्चर्यजनक बदलाव से प्रभावित होने से कीमतों पर दबाव पड़ा। एमसीएक्स में भी सोने की कीमतों में करीब 4% की गिरावट हुई जबकि चांदी की कीमतों में 5% से अधिक की गिरावट हुई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अपने दरों में बदलाव को लेकर रूख में आश्चर्यजनक बदलाव और डेल्टा कोरोनावायरस वायरस के प्रसार के कारण वैश्विक आर्थिक सुधार के पटरी से उतरने की चिंता के कारण डॉलर 2-1/2-महीने के शिखर पर पहुंच गया, जो नवंबर 2016 के बाद से सबसे अधिक मासिक वृद्धि है। इससे सोने की कीमतों पर दबाव पड़ा।

आउटलुक

अमेरिकी रोजगार के मिले-जुले आंकड़ों के बाद फेडरल रिजर्व द्वारा अनुमान से पहले दर वृद्धि पर चिंताओं के कम होने के कारण सोने की कीमतों को समर्थन मिल रहा है। हालांकि, अमेरिका में आर्थिक विकास की गति काफी मजबूत है, लेकिन मुद्रास्फीति भी काफी अधिक हो गई है। बाजार अभी भी फेड के हाथ से खेल रहा है और यह सोने की ऊपर की ओर बढ़त सीमित कर सकता है। अमेरिकी श्रम बाजार में तेज रिकवरी के बाद निवेशकों का ध्यान आर्थिक आंकड़ों और फेड के अगले कदम की ओर बढ़ रहा है, जबकि बाजार मुद्रास्फीति पर चिंताओं के बीच मजबूत आर्थिक सुधार के अन्य प्रमाणों को लेकर उत्साहित है। 07 जुलाई को प्रकाशित होने वाली फेड की नवीनतम बैठक के मिनट मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति को आगे बढ़ाने पर नीति निर्माताओं के विचारों पर अधिक प्रकाश डाल सकते हैं।

जुलाई में, बुलियन काउंटर के तेजी के रूझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है, जहां हम उच्च स्तर से कुछ बिन्नी भी देख सकते हैं। चांदी की कीमतों के बहुत अस्थिर रहने की उम्मीद है और उच्च स्तर से भी बिकवाली की उम्मीद है।

प्रमुख खबरें

- मौद्रिक नीति पर फेड का रुख:** अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने जून के मध्य में कारोबारियों को तब आश्चर्यचकित कर दिया जब उसने अधिक मुद्रास्फीति के दबाव और मजबूत विकास को देखते हुए संभावित नीतिगत बदलाव का संकेत दिया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी पूर्व योजना से एक साल पहले 2023 तक ब्याज दरें बढ़ाने की अपनी योजना का संकेत दिया। फेडरल रिजर्व की पिछली बैठक के जारी मिनट में केंद्रीय बैंक के इस साल जल्द से जल्द संपत्ति की खरीद को कम करना शुरू कर देना चाहिए। फेड अधिकारियों ने पिछले महीने अमेरिकी आर्थिक सुधार पर पर्याप्त प्रगति महसूस की जिसे 'आमतौर पर देखा गया था कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है,' लेकिन सहमति व्यक्त की कि केंद्रीय बैंक की जून नीति के मिनट के अनुसार मुद्रास्फीति या अन्य जोखिम होने पर उन्हें कार्रवाई करने के लिए तैयार होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन के महत्वाकांक्षी 1.2 ट्रिलियन डॉलर के बुनियादी ढांचे के पैकेज पर प्रगति के बीच डॉलर की मौजूदा बढ़त में भी ठहराव आने की संभावना है, जिससे कीमती धातुओं की रिकवरी को मदद मिल सकती है।
- वैश्विक आर्थिक सुधार की उम्मीद:** महामारी से उबरते हुए वैश्विक आर्थिक रिकवरी ने गति पकड़ी है, लेकिन सभी देशों में रिकवरी की गति समान नहीं है और कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं और कुछ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत सुधार देखा जा रहा है, जबकि भारत सहित शेष विश्व पिछड़ गया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था कोविड-19 की मंदी से अच्छी तरह से उबर रही है, जो सोने के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि निवेशक तेजी से उच्च-योल्ट और अधिक जोखिम वाली संपत्ति पसंद करते हैं। मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन की मात्रा के साथ, अर्थव्यवस्था में तेजी आना निश्चित है।
- डेल्टा प्रकार के कोरोनावायरस के प्रसार को लेकर भय :** दुनिया भर में टीकाकरण के नवीनतम आंकड़ें बहुत सकारात्मक रहे हैं। लेकिन कारोबारियों की नजर पूरे एशिया और यूरोप में कोविड-19 वायरस के डेल्टा वेरिएंट में हालिया उछाल पर है, जिससे कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट के बाद सुरक्षित निवेश की मांग में बढ़ोतरी हो सकती है। एशिया और यूरोप के कुछ देशों को फिर से खोलने की योजना को डेल्टा कोरोनावायरस संस्करण ने फिर से बंद करने को विवश किया है। इन चिंताओं और संयुक्त राज्य के कुछ हिस्सों में कम टीकाकरण दर से कुछ निवेशक समझ सकते हैं कि फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बारे में सतर्क रहेगा जिससे लंबी अवधि में सोने की कीमतों को मदद मिल सकती है।
- बढ़ती मुद्रास्फीति एक प्रमुख चिंता का विषय है:** वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई है। इस साल अमेरिका में भारी प्रोत्साहन खर्च के कारण मुद्रास्फीति की आशंका बढ़ गई है, जहां मई में उपभोक्ता कीमतों में 2008 के बाद से सबसे अधिक 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि उच्च मुद्रास्फीति फेड के विश्वास से अधिक समय तक बनी रहती है, तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक को कार्रवाई करनी पड़ सकती है। नीतिगत सख्ती होने में देरी होने से मुद्रास्फीति अधिक बढ़ सकती है, जिससे वास्तविक ब्याज दरों को और नीचे धकेल सकती है। इस स्थिति में, उच्च मुद्रास्फीति और कम वास्तविक ब्याज दरों से सोना लाभान्वित हो सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक अध्ययन के अनुसार, मुद्रास्फीति में प्रत्येक 1% की वृद्धि के बाद सोने की मांग में 2.5% की वृद्धि होती है और इसलिए इसकी कीमत बढ़ जाती है।
- केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद:** सर्बिया से लेकर थाईलैंड तक के केंद्रीय बैंक सोने के भंडार में इजाफा कर रहे हैं और घाना ने हाल ही में खरीद की योजना की घोषणा

एमसीएक्स में सोने की कीमतों में बदलाव



स्रोत: रायटर्स

कोमेक्स में सोने की कीमतों में बदलाव



स्रोत: रायटर्स

एमसीएक्स में चांदी की कीमतों में बदलाव



स्रोत: रायटर्स

कोमेक्स में चांदी की कीमतों में बदलाव




स्रोत: रायटर्स

जुलाई 2021 में, सोने की कीमतें 46500-49500 रु और चांदी की कीमतें 66000-71500 रु के दायरे में कारोबार कर सकती है। जबकि कोमेक्स में सोने की कीमतें 1740-1850 डॉलर और चांदी की कीमतें 25.40-28.00 डॉलर के दायरे में कारोबार कर सकती है।

की है, क्योंकि मुद्रास्फीति में तेजी और वैश्विक व्यापार में सुधार की गति खरीदारी करने की क्षमता प्रदान करता है। बैंकों की खरीदारी-जो एक दशक में सबसे कम हो गया था- में उछाल से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बेहतर हुई है। सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वूसिक ने हाल ही में घोषणा की कि केंद्रीय बैंक कीमती धातु की होल्डिंग को 36.3 टन से बढ़ाकर 50 टन करेगा।

- **चीन में सोने की मांग:** हांगकांग के माध्यम से चीन में शुद्ध सोने का आयात अप्रैल के लगभग तीन साल के उच्च स्तर से मई में आधे से अधिक रह गया है। मेटल्स फोकस ने एक साप्ताहिक नोट में कहा है कि स्विट्जरलैंड से अप्रैल और मई में वृद्धि सोने की भौतिक मांग में सुधार के बजाय स्थानीय व्यापार में कीमतों के प्रीमियम के कारण हुई है।
- **भारत में सोने की मांग:** हाल ही में कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण भारत में सोने की निवेश मांग भी धीमी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर सोने की मांग प्रभावित हुई। यह जून 2020 में 0.85 मीट्रिक टन के सोने के मामूली आयात के साथ स्पष्ट है। जून के अंतिम सप्ताह में भारत में सोने को दो महीने से अधिक समय में पहली बार प्रीमियम पर बेचा जा रहा था, क्योंकि कोरोनावायरस की दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों में ढील के बाद मांग में वृद्धि हुई है।

सोने और चांदी का अनुपात



स्रोत: रायटर्स

एनॉलसिस: सोना/चांदी का अनुपात, जो सोने को खरीदने के लिए आवश्यक चांदी के औंस की संख्या को मापता है, जून महीने में 66.5 से 66.7 के कम दायरे में रहा है। जुलाई में सोने और चांदी का अनुपात 65-69 के दायरे में रह सकता है।

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402,
4th Floor, Graham Firth Steel Compound,
Off Western Express Highway, Jay Coach
Signal, Goreagon (East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600,
Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate
No-4, 5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएँ और संबंधित सेवाएँ करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम.एस.एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कर्मांडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कर्मांडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कर्मांडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिक्वोरिटीज मार्केट/कर्मांडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियाँ/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कर्मांडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

दिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता की व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सकुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा ज़रूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को ज़रूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है। निवेश को वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ) समय-समय पर किसी भी कर्मांडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोषित हो सकती है और वह इस कर्मांडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कर्मांडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और क्रॉकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विचार हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।